



## AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



**प्रेसनोट थाना न्यू आगरा जनपद आगरा ।**

**19.06.2022**

थाना न्यू आगरा पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर जेब कतरो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद ब्लैड(जेब काटने वाले), 01 मोबाइल, 01 आधार, रू0 1,000/- (नगदी), 08 अदद पर्स(जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, शाँपिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेविड कार्ड, 02 अदद चैक, सिम कार्ड आदि) बरामद...

दिनांक 11.12.2021 को थाना न्यू आगरा पर वादी श्री श्याम बहादुर गौतम द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी अपने घर से दीवानी जा रहा था, रास्ते में सरन नगर के पास न्यू आगरा रोड पर शहीद पृथ्वी सिंह की शव यात्रा निकालने के कारण बहुत अधिक भीड हो रही थी। वादी ने अपनी मोटर साइकिल न्यू आगरा अस्पताल के पास खडी कर दी। किसी जेब कतरे द्वारा मेरा पर्स ( रू0 19,060/-, SBI ATM कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड व कुछ जरुरी छोटे पर्ची) चोरी कर लिया गया था। उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पर मु0अ0सं0 409/21 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी हरिपर्वत के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक न्यू आगरा को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक को 19.06.2022 को थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त व चैकिंग की जा रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि 02 जेब कतरे लॉयर्स काँलोनी कट पर जेब काटने की फिराक में बस के इन्तजार में खडे है, जिन्होने पिछले वर्ष माह दिसम्बर में एक व्यक्ति की जेब काटी थी, जिनके पास जेब काटने के औजार भी है। यदि जल्दी की जाए तो पकडे जा सकते है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये लॉयर्स काँलोनी कट से 100 कदम की दूरी पर एक वारगी दविश देते हुये 02 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद ब्लैड(जेब काटने वाले), 01 मोबाइल, 01 आधार, रू0 1,000/- (नगदी), 08 अदद

पर्स(जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल,शॉपिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेविड कार्ड, 02 अदद चैक, सिम कार्ड आदि) बरामद हुये ।

### ✓ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01. फिरोज पुत्र अनार खान निवासी बडा लोकपुर थाना चौबिया जनपद इटावा ।

02. हजरती उर्फ हजरत अली पुत्र जहीरउद्दीन निवासी बडा लोकपुर थाना चौबिया जनपद इटावा ।

### ✓ पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा अपना नाम फिरोज व हजरती उर्फ हजरत अली बताया गया । कडाई से पूछताछ करने पर दोनो अभियुक्तगणो द्वारा बताया गया कि हमारे पास से रू0 1,000/-, व आधार कार्ड बरामद हुये है, यह हम दोनो पिछले वर्ष माह दिसम्बर में दयालबाग पर मोटरसाइकिल के पास खडे व्यक्ति की जेब काटकर चोरी किये थे । यह आधार कार्ड उसी व्यक्ति का है व पर्स में करीब रू0 20,000/- थे जो हम दोनो ने आपस में बाँट लिये थे । दोनो अभियुक्तगणों से बरामदा ब्लैड के सम्बन्ध में कडाई से पूछताछ करने पर बताया । हम दोनो बस, रास्ते में व भीड-भाड वाली जगहो पर जेब काटकर चोरी करते है । हम दोनो जेब काटने के बाद मिले पर्स व अन्य सामान को अपने किराये के कमरे पर ले जाते है । पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगणो की निशानदेही पर किराये के कमरे पर पहुँची तो दोनो अभियुक्तगणो के कब्जे से 08 अदद पर्स (जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल,शॉपिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेविड कार्ड, 02 अदद चैक, सिम कार्ड आदि) बरामद हुये । माल बरामदगी के आधार पर धारा 411/414 भा0द0वि0 की बढोत्तरी की गयी ।

### ✓ बरामदगी का विवरण:-

01. 02 अदद ब्लैड(जेब काटने वाले) ।

02. 01 मोबाइल ।

03. 01 आधार कार्ड ।

04. रू0 1,000/- (नगदी), ।

05. 08 अदद पर्स(जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल,शॉपिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेविड कार्ड, 02 अदद चैक, सिम कार्ड आदि) ।

✓ आपराधिक इतिहास का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 409/21 धारा 379/411/414 भा0द0वि0 थाना न्यू आगरा जनपद आगरा ।
02. मु0अ0सं0 509/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना न्यू आगरा जनपद आगरा ।

✓ पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री विजय विक्रम सिंह थाना न्यू आगरा जनपद आगरा ।
02. उ0नि0 श्री हरीश कुमार थाना न्यू आगरा जनपद आगरा ।
03. का0 शुभम कुमार, का0 अजीत कुमार सर्विलांस सेल जनपद आगरा ।
04. है0का0 आशुतोष सिंह, का0 वीरेन्द्र सिंह, का0 अनिल कुमार थाना न्यू आगरा जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।